



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श०)

(सं० पटना 135)

पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

कार्यालय मुख्य अभियंता  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

कार्यालय आदेश  
20 फरवरी 2009

सं०-मु०अ०ल०सि० अनु०-25/2007-136-जिला अनुकम्पा समिति, रोहतास, सासाराम के ज्ञापांक 31/मु० दिनांक 12.12.2005 द्वारा की गई अनुशंसा एवं लघु जल संसाधन विभाग, पटना के ज्ञापांक-2007 दिनांक 17.04.2007 में निहित विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व० रीमा कुमारी, लिपिक, नलकूप प्रमण्डल, सासाराम कैम्प डिहरी के आश्रित पति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव को लघु सिंचाई अंचल, पटना के अन्तर्गत रिक्त पत्राचार लिपिक के पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक में तृतीय श्रेणी पद पर वेतनमान 3050-4590 रु० में तथा सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया जाता है जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है।

2. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व० रीमा कुमारी के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं० 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका 1(ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना द्वारा करा लिया जायेगा।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र सं० 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका 7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव को योगदान करने क समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 2469 दिनांक 16.11.2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकार अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।
7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि यह नियुक्त रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।
9. योगदान करने हेतु श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह०/—अस्पष्ट,  
मुख्य अभियंता,  
लघु जल संसाधन विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 135-571+10-डी0टी0पी0।